

संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश  
ग-खण्ड, प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन, भोपाल  
दूरभाष 0755-2551199, 2552002

वाहन नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण

संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल  
का वाहन क्रमांक एमपी-02-एव्ही-1033 (पेट्रोल)  
मारुति वेन मॉडल वर्ष 10/2005 की नीलामी करने  
के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । निविदा  
अन्तर्गत शर्त एवं निविदा प्रपत्र कार्यालय की  
वेबसाइट [www.dif.mp.gov.in](http://www.dif.mp.gov.in) अथवा कार्यालय से  
दिनांक 12/2/2019 को अपरान्ह 5.00 बजे तक  
प्राप्त किये जा सकते है । निविदा कार्यालय में  
जमा करने की अंतिम दिनांक 13/2/2019  
अपरान्ह 3.00 बजे तक है तथा प्राप्त निविदाए  
दिनांक 13/2/2019 को ही अपरान्ह 3.30 बजे  
खोली जायेगी ।

आयुक्त संस्थागत वित्त म.प्र. को निविदा प्रक्रिया  
को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का  
अधिकार होगा एवं आयुक्त संस्थागत वित्त का  
निर्णय अंतिम एवं निविदाकर्ता के लिये बंधनकारी  
होगा ।

आयुक्त

संस्थागत वित्त म.प्र.

## संचालनालय, संस्थागत वित्त

### विन्ध्याचल भवन, सी विंग प्रथम तल भोपाल

क्रमांक / वाहन मारुति वेन-/ 2019,

भोपाल, दिनांक जनवरी 2019

#### निविदा सूचना आमंत्रण

**विषय:-** संचालनालय संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश भोपाल का वाहन (पेट्रोल) क्रमांक एम पी-02-एव्ही 1033 मॉडल वर्ष 2005 की नीलामी करने बाबत ।

संचालनालय संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश भोपाल का वाहन (पेट्रोल) चलित मारुति वेन का निविदा बुलाकर नीलाम किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

एम पी-02-एव्ही 1033 मॉडल वर्ष 2005

#### **निविदा की शर्तें**

1. प्रत्येक निविदा के साथ रूपये 3000/- ( रूपये तीन हजार केवल) का बैंक डाफ्ट आयुक्त, संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल के नाम से देय कार्यालय में प्रतिभूति हेतु जमा करना होगा । बिना उक्त प्रतिभूति राशि के प्रस्तुत निविदा को अमान्य किया जायेगा ।
2. निविदाकर्ता संचालनालय, संस्थागत वित्त म.प्र. के विन्ध्याचल भवन प्रथम तल कार्यालय से निविदा दिनांक 12/2/2019 को 5.00 बजे तक प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा इसी कार्यालय में निविदा प्रपत्र जमा होंगे । निविदा प्रपत्र संचालनालय संस्थागत वित्त की वेब-साइट: [www.dif.mp.gov.in](http://www.dif.mp.gov.in) पर भी उपलब्ध । निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) है । वेबसाइट से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने पर निविदा जमा करते समय प्रपत्र की राशि नगद जमा करनी होगी । प्रपत्र की राशि वापसी योग्य नहीं है ।
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 13/2/2019 को सांय 3.00 बजे तक है तथा निविदा उसी दिन दिनांक 13/2/2019 को सांय 3.30 बजे खोली जावेगी ।
4. निविदा मुहुरबन्द होना अनिवार्य है । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
5. विक्रय की जाने वाली गाडी पर विक्रय कर नहीं लगेगा ।
6. उच्चतम ऑफर प्राप्त होने पर वाहन मारुति वेन निविदाकर्ता को दिया जायेगा । तथा प्रतिभूति की राशि समायोजित कर शेष राशि साईबर ट्रेजरी के माध्यम से 7 दिन के अन्दर जमा करानी होगी । इसके पश्चात् निविदाकर्ता को वाहन जहाँ है जिस स्थिति में है अपने स्वयं के व्यय से ले जाना होगा । इसके लिये इस विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।
7. उच्चतम ऑफर प्राप्तकर्ता द्वारा शेष राशि 7 दिन के अन्दर जमा नहीं करता है तो प्रतिभूति राशि रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार मात्र) जप्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय निविदाकर्ता के विक्रय ऑफर पर वाहन प्रदाय कर दिया जायेगा ।
8. वाहन को देखने की सुविधा कार्यालय दिवस, कार्यालयीन समय, प्रातः 11.00 बजे से 3.00 बजे तक कार्यालय परिसर (विन्ध्याचल भवन ) में उपलब्ध रहेगी ।
9. आयुक्त संस्थागत वित्त भोपाल को यह अधिकार होगा की वे बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत या पूर्णतः अमान्य कर सकते हैं ।

संयुक्त संचालक

संस्थागत वित्त, म.प्र. भोपाल

संचालनालय संस्थागत वित्त

मध्यप्रदेश भोपाल

आवेदन प्राप्ति का सरल क्रमांक-----

वाहन के नीलामी का पंजीयन क्रमांक एम पी -02 एव्ही - 1033

टेण्डर फार्म ( वाहन नीलामी हेतु)

प्रति,

आयुक्त,

संचालनालय संस्थागत वित्त

विन्ध्याचल भवन, प्रथम तल,

भोपाल, म.प्र.

मैं------(नाम आवेदन कर्ता) आपके संचालनालय द्वारा दिनांक-----  
-----

को नीलाम किये जाने वाहन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करता / करती हूँ । तथा उक्त वाहन को रूपये ----- ( शब्दों में रूपये -----) में खरीदने के लिये तैयार है । विवरण निम्नानुसार है ।

- 1 नाम -----
- 2 पिता/पति का नाम -----
- 3 स्थायी पता -----
- 4 वर्तमान पता (पत्र व्यवहार का पता  
टेलीफोन / मोबाईल नम्बर -----  
-----  
-----
- 5 धरोहर राशि -----  
बैंक डाफ्ट क्रमांक ----- दिनांक -----  
बैंक का नाम -----

घोषणा पत्र

मैंने आवेदन फार्म के साथ विज्ञापन में दर्शाये गये संपूर्ण विवरण एवं शर्तों का विवेक पूर्ण अध्ययन कर लिया है जो मुझे स्वीकार है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- कृपया आवेदन सील बन्द लिफाफे में देवे